

इसे वेबसाइट www.govt_pressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 460]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 20 अगस्त 2018—श्रावण 29, शक 1940

लोक सेवा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 2018

शुद्धि-पत्र

क्र. एफ-2-07-2018-इक्सठ-लोसोप्र-पी.एस.जी.-15.—असाधारण राजपत्र क्र. 175 दिनांक 21 मार्च 2018 के पृष्ठ 350 (2) में सेवा क्रमांक 15.20-पंक्ति क्र. 05 में “दर्ज करना” के स्थान पर “निरस्त करना” पढ़ा जावे।

हरिरंजन राव, प्रमुख सचिव.